



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1983/चैत्र 9, 1905
No. 156] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1983/CHAITRA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1983

का. अ. 258(अ)/18चख/आई.डी.आर.ए./83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. अ. 192(अ)/18चख/आई.डी.आर.ए./79/1 तारीख 31 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संयदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिसका मेसर्स महावेश टेक्सटाइल मिल्स, हुगली, कर्नाटक, नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरस्त रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए मिलम्बित रहेंगे।

और उक्त आदेश की अवधि का. अ. 232(अ)/18चख/आई.डी.आर.ए./80, तारीख 31 मार्च, 1980 द्वारा 30 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और का. अ. 215(अ)/18चख/आई.डी.आर.ए./81, तारीख 25 मार्च, 1981 द्वारा 30 मार्च, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और का. अ. 215(अ)/18चख/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 30-3-1982 द्वारा 30 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 29 मार्च, 1984 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि, 30 मार्च, 1984 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा.सं. 3(2)/79-सी.यू.एस.]

ए.पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1983

S.O. 258(E)/18FB/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 192(E)/18FB/IDRA/79, dated the 31st March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Mahadev Textile Mills, Hubli, Karnataka, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all obligations and liabilities

occurring or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th March, 1981 by S.O. 232(E)/18FB/IDRA/80 dated 31st March, 1980 and upto and inclusive of the 30th March, 1982 by S.O. 215(E)/18FB/IDRA/81 dated 25th March, 1981 and upto and inclusive of the 30th March, 1983 by S.O. 209(E)/18FB/IDRA/82 dated the 30th March, 1982 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of said Order should be extended for a further period upto and inclusive of 29th March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 29th March, 1984.

{F. No. 3(2)/79-CUS}

A. P. SARWAN, Jt. Secy.